



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 पौष 1936 (श0)  
(सं0 पटना 54) पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

---

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

17 दिसम्बर 2014

सं0 22/नि0सि0(दर0)-16-03/2010/1978—श्री हरि प्रसाद साह, माननीय मंत्री, पंचायती राज्य पिछड़ा/अति पिछड़ा कल्याण विभाग से प्राप्त परिवाद के आलोक में पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना अन्तर्गत राजपुर वितरणी से निसृत धरहरा उप वितरणी के आर0 डी0 12.40 पर निर्मित साइफन की गुणवत्ता की जाँच उड़नदस्ता द्वारा किया गया। परन्तु, जाँच सही ढंग से नहीं किये जाने के कारण उड़नदस्ता अंचल के किसी अन्य जाँच दल से गुणवत्ता की जाँच कराकर मंतव्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। फलतः उड़नदस्ता अंचल द्वारा पूर्ण जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसकी गहन समीक्षा सरकार के स्तर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री मनोज कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए पत्रांक-585 दिनांक 07.06.12 द्वारा निम्न आरोप के संदर्भ में स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया।

**आरोपः—** राजपुर वितरणी से निसृत धरहरा उपवितरणी के आर0 डी0 12.40 पर निर्मित साइफन की गुणवत्ता जांच में संरचना के कौपिंग में किये गये पी0 सी0 सी0 एवं ईट की जोड़ाई में प्रयुक्त सिमेन्ट मोर्टार के नमूनों की जाँच में सिमेन्ट एवं बालू का अनुपात विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाया जाना।

आरोपी पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरुद्ध आरोप को प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री मनोज कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-19 के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया हैः—

“एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक”।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में उक्त दण्ड श्री मनोज कुमार, सहायक अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गजानन मिश्र,  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 54-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>